

वित्तीय मदद

क्या कोविड-19 के कारण आपको नौकरी से निकाल दिया गया है या आपकी आय कम हो गई है?

आप कनाडा सरकार की वित्तीय सहायता के लिए योग्य हो सकते हैं।



कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट (सीईआरबी)

आपकी आप्रवास स्थिति (नागरिक, स्थायी निवासी, शरण लेने वाले, अस्थायी कर्मचारी या अंतर्राष्ट्रीय छात्र) के बावजूद, आप आवेदन कर सकते हैं यदि:



आपने स्वेच्छा से अपनी नौकरी नहीं छोड़ी।



आप काम नहीं कर सकते क्योंकि आपको स्कूल और डे केयर के बंद होने के कारण अपने बच्चों की देखभाल करना जरूरी है, या क्योंकि आपको किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करनी है जो कोविड-19 से पीड़ित है।



आपकी आयु 15 वर्ष से अधिक है।

5,000 +

वर्ष 2019 या पिछले 12 महीनों में आपकी आय \$5,000 या अधिक (कनाडा या विदेश में) थी।



आप रोजगार बीमा भुगतान प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

14 दिन

आपको पिछले 14 दिनों से कोई आय नहीं हुई है।
या

<\$1,000
प्रति माह

आपकी आय कम हो गई और अब आप प्रति माह \$1,000 से कम कमा रहे हैं।

आप 15 मार्च, 2020 से 3 अक्टूबर, 2020 के बीच की अवधि के लिए प्रतिमाह \$2,000 प्राप्त कर सकते हैं

अपना सीईआरबी आवेदन जमा करने के लिए, आपको उपलब्ध कराना होगा:

- अपना सामाजिक बीमा नंबर
- अपना पोस्टल कोड
- वह अवधि जिसके दौरान आपने काम नहीं किया

अपना आवेदन जमा करें:



[ऑनलाइन](#)



फोन पर: 1-800-959-2041 या
1-800-959-2019

यदि आपको अपना सीईआरबी आवेदन जमा करने में सहायता की आवश्यकता है, तो इस पृष्ठ के दूसरी ओर विवरण देखें।



यदि आपको अपना सीईआरबी आवेदन जमा करने में सहायता की आवश्यकता है:

2-1-1 पर कॉल करें या

स्पेनिश	CSAI (सीएसएआई): Leanna Machado (लीनना मचाडो) 514-932-2953 एक्सटेंशन 115
Haitian Creole (हाईटियन क्रियोल)	La Maisonnée (ला मैसनोनी): Marie-Charlotte Staco Jean (मैरी-शेर्लोट स्टाको जीन) 514-271-3533
पंजाबी	सियारी: Lakshmi Jaisimhan (लक्ष्मी जयसिम्हान) 514-735-5783
हिंदी	सियारी: Lakshmi Jaisimhan (लक्ष्मी जयसिम्हान) 514-735-5783
अरबी	CSAI (सीएसएआई): Tania Rahbeh (तानिया रहबेह) 514-932-2953 एक्सटेंशन 225
मैंडारिन	CSAI (सीएसएआई): Mingyue Sun (मिंग्यु सुन) 514-932-2953 एक्सटेंशन 105
टैगलॉग	सियारी: Yolanda Catolos (योलान्डा कैटोलोस) 514-677-6822
फारसी	CSAI (सीएसएआई): Ghazaleh Moradian (गज़लेह मोरडियन) 514-932-2953 एक्सटेंशन 226
बांग्ला	सियारी: Nargish Hashem (नरगिस हाशम) 514-249-5168
यहूदी भाषा	Agence Ometz – Susan Karpman (एग्रेस ओमेटज़ - सुसान कार्पमैन) 514-734-1411
तमिल	NDG में आपका स्वागत है: Manisha Iyer (मनीषा अय्यर) 514-561-5850
रूसी भाषा	NDG में आपका स्वागत है: Diana Costandoi (डायना कोस्टांडोई) 514-561-5850



याद रखें...



आपके नियोक्ता को सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुझावों का पालन करना जरूरी है।



यदि आप सीईआरबी लाभ प्राप्त करते हैं तो आपकी आप्रवास कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।



यदि कार्य की स्थितियां आपके स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं तो आपका नियोक्ता आपको काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। आपको असुरक्षित काम से इंकार करने का अधिकार है।



सीईआरबी के लाभों को बाद की तारीख में भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि, आपको मिलने वाला कोई भी लाभ कर योग्य होगा। राशि पर आयकर देय होगा जब वर्ष 2020 के लिए कर फाइल किए जाएंगे, अर्थात् 30 अप्रैल, 2021 से पहले।

Santé publique (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के सुझाव:



अपने हाथों को धोएं



श्वसन स्वच्छता



यदि आप बीमार हैं तो घर पर रहें

संसाधन

सामाजिक और सामुदायिक संसाधन: 2-1-1 पर कॉल करें सूचना और संदर्भ सेवाएं, 200 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध हैं, जो आपको तुरंत उपयुक्त सामुदायिक संगठन या ऐसी सेवा जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, उपलब्ध कराने में मदद करेगी।

स्वास्थ्य जानकारी और सामाजिक जानकारी: 8-1-1 पर कॉल करें 8-1-1 एक मुफ्त, गोपनीय टेलीफोन परामर्श सेवा है जो 24/7 उपलब्ध है।

साझेदारी में:

